

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रस्तापारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६०] नई दिल्ली, सातवार, फरवरी २३, १९७०/फाल्गुन ४, १८९१

No. 60] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1970/PHALGUNA 4, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 23rd February 1970

S.O. 719.—In exercise of the powers conferred by section 295 of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1970.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (herein after referred to as the principal rules), in the Table below rule 18A, for the word "Madras" occurring in column 2 and in column 3 against Sl. No. 6, the words "Tamil Nadu" shall be substituted.
3. In rule 37 of the principal rules, to sub-rule (2A), the following proviso shall be added, namely:—
 "Provided that in respect of tax deducted in cases to which item (1) of sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 30 applies, the particulars shall be furnished in the statement relating to the quarter next following the quarter in which the deduction is made."
4. In rule 50 of the principal rules, after clause (2), the following clause shall be inserted, namely:—
 "(3). The Final Examination of the Institute of Cost and Works Accountants of India constituted under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959)"

[No. 22/F. No. 3(20)/69-TPL.]

R. R. KHOSLA, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1970

एस० ओ० 719:—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1. ये नियम आय-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।
2. आय-कर नियम 1962 (जिसे इस में इस के पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 18 क के नीचे की सारणी में क्रम सं० 6 के सामने स्तम्भ 2 और स्तम्भ 3 में आने वाले "भद्रास" शब्द के स्थान पर "तामिलनाडु" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. मूल नियम के नियम 37 में उप-नियम (2क) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात् —
 "परन्तु उन देशाग्रे में जिनको नियम 30 के उपनियम (1) के खण्ड (ब) के उपखण्ड (I) की मद (1) लागू होती है कटौती किए गए कर के बारे में विशिष्टियां उस तिमाही की, जिस में कटौती की गई हैं ठीक अगली तिमाही से संबंधित विवरण में दी जाएगी।"
4. मूल नियम के नियम 50 में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् —
 "(3) लागत और सकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन गठित भारत के लागत और सकर्म लेखापालों की संख्या की अंतिम परीक्षा।"

[स० 22/फा० न० 3(20)/69-टी० पी० एल०]

आर० आर० बोसला, सचिव।